

## ओनटैरियो सरकार ने, 3 अप्रैल से पूरे प्रांत को बंद करने की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अप्रैल, 2021) – आज, ओनटैरियो सरकार ने, 3 अप्रैल, 2021 से, पूरे प्रांत को बंद करने की घोषणा की, जो कम से कम चार सप्ताह तक, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) सहित, ओनटैरियो (Ontario) के लिए लागू रहेगी।

सुरक्षा उपायों में शामिल हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

- इनडोर संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों या सामाजिक जनसमूहों पर पाबंदी; जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, उन्हें एक और परिवार के साथ इकट्ठे होने की अनुमति है;
- आउटडोर संगठित सार्वजनिक कार्यक्रम या सामाजिक जनसमूह, अधिकतम 5 व्यक्तियों तक सीमित हैं, एक घर के सदस्यों (जो आपके साथ रहते हैं) के साथ इकट्ठे होने को छोड़कर;
- सभी रिटेल सेटिंग्स में व्यक्तिगत खरीदारी पर पाबंदी, अन्य पब्लिक हेल्थ और कार्यस्थल में सुरक्षा संबंधी उपायों के साथ, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर, कन्वीनियस स्टोर, इनडोर फार्मर्स मार्केट्स, अन्य स्टोर जो मुख्य तौर पर भोजन संबंधी वस्तुएं बेचते हैं और फार्मसीज के लिए 50 प्रतिशत कैपिसिटी की सीमा, बिग बॉक्स स्टोर्स (बहुत बड़े स्टोर, जहां सभी वस्तुएं एक ही जगह पर मिलती हैं) सहित अन्य सभी रिटेल के लिए 25 प्रतिशत कैपिसिटी सीमा;
- निजी देखभाल संबंधी सेवाएं बंद रहेंगी;
- इनडोर और आउटडोर डाइनिंग (रेस्टोरेंट आदि में अंदरूनी और बाहरी जगह पर खानपान) पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स, बार्स और खानपान संबंधी संस्थानों को, केवल टेकआउट, ड्राइव-थ्रू और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी;
- बहुत ही सीमित छूटों के साथ, इनडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स और रेक्रिएशन फिटनेस (जैसे जिम) के लिए फैसिलिटीज के प्रयोग पर पाबंदी;
- डे कैम्पो को बंद करना जरूरी है; और,
- शादी, अंतिम संस्कार और धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों में, इनडोर हर कमरे में 15 प्रतिशत तक कैपिसिटी सीमा और आउटडोर, जहां कम से कम दो मीटर की शारीरिक दूरी रखी जा सके, वहां असीमित संख्या में व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं। इसमें रिसेप्शन जैसी सेवाओं से जुड़े सामाजिक जनसमूह शामिल नहीं हैं, जिनकी इनडोर अनुमति नहीं है और आउटडोर पांच व्यक्तियों तक सीमित हैं।

चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (Chief Medical Officer of Health) की सलाह से, निवासियों से अनुरोध है कि वे केवल भोजन, दवाई, मेडिकल संबंधी मुलाकातों, कमज़ोर कम्युनिटी मेम्बरों की मदद करने और केवल अपने घर के सदस्यों के साथ ही आउटडोर एक्सरसाइज करने जैसी जरूरतों के लिए ही घर से बाहर जाएं। सभी इंडस्ट्रीज के इम्प्लायर्स को, कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

### सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

### **सिटी हॉल और कार्पोरेट फैसिलिटीज**

सिटी हॉल (City Hall) और कार्पोरेट फैसिलिटीज, केवल मुलाकात बुक करके व्यक्तिगत सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। बिना मुलाकात बुक किए आने की अनुमति नहीं है। मुलाकात बुक करने के लिए [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) पर जाएं।

### **सिटी के रेक्रिएशन सेंटर**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी रेक्रिएशन फैसिलिटीज, जनता के लिए बंद रहेंगी और इनडोर प्रोग्राम, अगले नोटिस तक स्थगित ही रहेंगे।

### **वर्चुअल प्रोग्राम**

#### **वर्चुअल फिटनेस**

निवासियों को कुशल फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ 30 मिनट के मुफ्त लाइव वर्कआउट की, इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व वाली वर्चुअल फिटनेस क्लासों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

#### **55 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए वर्कशॉप्स**

ब्रैम्पटन के 55 वर्ष के और इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, घर से ही आराम से की जाने वाली मुफ्त वर्चुअल वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हिस्सा लेने वालों के पास, सुरक्षित और संगठित वातावरण में लोगों से मिलने-जुलने, नए दोस्त बनाने तथा ऑनलाइन, दूसरों से जुड़ने का अवसर होगा।

#### **भागीदारी वाली वर्चुअल गतिविधियां और वर्कशॉप्स**

यह सीरीज, विकलांग और अन्य असामान्यताओं वाले भागीदारों के लिए, गतिविधियों से जुड़ने, कुछ नया सीखने और अपनी उम्र के बच्चों के लिए मज़बूत दोस्ती करने का शानदार अवसर है।

रजिस्टर कैसे करना है, इस बारे में विवरणों सहित, वर्चुअल पेशकशों संबंधी अधिक जानकारी, [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर प्राप्त की जा सकती है।

### **रेक एट होम**

घर में ही, स्व-निर्देशित ऑनलाइन आर्ट्स और क्राफ्ट्स के ट्यूटोरियल्स के साथ क्रियाशील और व्यस्त रहें, जो 24/7 सुलभ है! सीखें कि ओरगैमी हार्ट कैसे बनाए जाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलीग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें। ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) के द्वारा प्यार से तैयार की गई, रेक एट होम (Rec At Home) गतिविधियों तक [यहां \(here\)](#) पहुंच प्राप्त करें।

**ब्रैम्पटन लाइब्रेरी**

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library), केवल चिंग्कूजी (Chinguacousy), फोर कोर्नेर्स (Four Corners) और स्प्रिंगडेल (Springdale) ब्रांच लाइब्रेरियों में ही सीमित इन-ब्रांच सेवाएं पेश करेगी। कर्बसाइड पिकअप, सिरिल क्लार्क (Cyril Clark), गोर मेडोज (Gore Meadows), माउंट प्लैजेंट विलेज (Mount Pleasant Village), साउथ फ्लैचर्स (South Fletcher's) और साउथ वेस्ट (South West) ब्रांच लाइब्रेरियों पर उपलब्ध है। संचालन के घंटों, सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल्स के लिए और यह जानने के लिए कि वस्तुएं आरक्षित कैसे करनी हैं, [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)। इस समय, इन ब्रांच सेवाओं में शामिल हैं, केवल आरक्षित वस्तुएं लेना, प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे तक, ट्रांज़ैक्शन संबंधी उद्देश्यों के लिए लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स का थोड़ी-बहुत प्रयोग करना, सीमित प्रिंटिंग और फोटोकॉपी सेवाएं। इन-ब्रांच स्टडी स्पेस उपलब्ध नहीं है। इस समय काम या पढ़ाई के लिए निजी डिवाइसों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। सभी ब्रांचों में, लाइब्रेरी की सामग्रियों के स्टाफ द्वारा चुने गए थीम वाले ग्रैब 'एंड' गो (Grab'n' Go) बैग्स लें और 24-घंटे के बाहरी ड्रॉप बॉक्सिज के द्वारा, सुरक्षित रूप से और आसानी से सामग्रियां वापस करें। अगले नोटिस तक, अदा न किए गए जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे।

**लिंक**

इनके बारे में अधिक जानें:

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)
- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)

**ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ**

ਮੋਨਿਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal)

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ

ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)